

सेवा में  
श्री योगी आदित्यनाथ जी,  
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश,  
लोक भवन, 15, विधान सभा मार्ग,  
लालबाग, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश – 226001

09 सितंबर 2022

आदरणीय मंत्री महोदय,

मैं आपको यह पत्र 'पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) इंडिया की ओर से दिनांक 09 अगस्त को भेजे गए पत्र का फॉलोअप करते हुए, और आज [पिटबुल द्वारा गाज़ियाबाद के पार्क में एक दस वर्ष के बच्चे पर आक्रमण की नयी खबर](#) सामने आने के संबंध में लिख रहा हूँ।

पिटबुल के आक्रमण यह नयी घटना पिछली उन कुछ घटनाओं के महज़ 2 माह के अंदर घटी है जिनमें [मेरठ में पिट बुल के आक्रमण से एक किशोरी के जख्मी होने](#), [पंजाब में एक 13 वर्षीय बच्चे के का एक कान काटने](#), [गुरुग्राम में एक पिट बुल डॉग द्वारा एक महिला को गंभीर रूप से घायल करने](#) और [लखनऊ में एक पिटबुल के अटैक से एक बुजुर्ग महिला की मौत](#) होने जैसी घटनाएँ हुई थी।

एक पशु चिकित्सक होने के नाते मैं आपसे एक बार फिर आपसे अनुरोध करते हुए लिख रहा हूँ कि राज्य में कुत्तों की अवैध लड़ाई के लिए विदेशी नस्ल के कुत्तों को रखने, उनके प्रजनन व बिक्री करने को प्रतिबंधित किया जाए, पालतू जानवरों की बिक्री करने वाली अवैध दुकानों व प्रजनकों पर रोक लगाई जाए व साथ ही साथ अवैध डॉगफाइट पर नकेल कसी जाए।

PETA इंडिया सिफ़ारिश करता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिकों को निर्देश जारी किए जाएँ कि वह अपने घरेलू कुत्तों की नसबंदी करवाएँ और एक माह के अंदर उनका पंजीकरण करवाएँ। पंजीकरण के दौरान मालिक घरेलू कुत्तों की नस्लों को स्पष्ट रूप से बताएं। निर्देश जारी होने के ठीक एक महीने की अवधि के बाद सरकारी प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत आने वाले कुत्तों के पालन, प्रजनन, और बिक्री पूरी तरह से रोक लगा दी जाए।

आशा करता हूँ कि आप इस जरूरी मुद्दे पर तत्काल कार्यवाही के कदम उठाएंगे। इस संबंध में PETA इंडिया को सरकार के साथ मिलकर इन नियमों का मसौदा तैयार करने में खुशी होगी।

इस संबंध में आपके कार्यालय द्वारा जो भी आवश्यक कदम उठाए जाएँ, कृपया हमें भी उस कार्यवाही से अवश्य अवगत कराएं। आप मुझसे 93119 10044 पर फोन अथवा [NithinK@petaindia.org](mailto:NithinK@petaindia.org) पर ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं।

आपके महत्वपूर्ण समय एवं इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

सादर,

डॉ. नितिन कृष्णगौड़ा  
वेट्रीनरि पॉलिसी एडवाइजर

Affiliates:

- PETA Asia
- PETA Australia
- PETA Foundation (UK)
- PETA France
- PETA Germany
- PETA Netherlands
- PETA US

Registered Office:

F-110, 1<sup>st</sup> Floor, Jagdamba Tower  
Plot No 13, Community Centre  
Preet Vihar, New Delhi  
110 092